

संपादकीय

सरकार दोस्ताना

अखिरकार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति कामयाब हुई और भाजपा व शिवसेना में आसन्न लोकसभा चुनावों के लिए सीटों को लेकर समझौता हो गया। यहां तक कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी तय माना गया कि कुछ सीटें मित्र दलों के लिए छोड़कर बराबर सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों ने 2014 का आम चुनाव साधर्मिलकर लड़ा था। बीजेपी ने तब 22 सीटें जीती थीं और शिवसेना 18 पर जा ठहरी थी। अब कि बार भाजपा 25 व शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन आगामी लोकसभा में चालीस सीट जीतने का दावा कर रहा है। दरअसल, 2014 विधानसभा चुनाव आते-आते दोनों दलों के रिश्तों में खटास आई और दोनों अलग-अलग चुनाव लड़े। भाजपा ने बड़े भाई का रुतबा हासिल किया। मगर पूर्ण बहुमत न होने पर दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। मगर सत्ता में साथ रहते हुए भी दोनों दलों के बीच नृा कुश्ती चलती रही। अब दोनों कह रहे हैं कि पच्चीस साल पुराना रिश्ता है हम मतभेद झुलकार आगे बढ़ेंगे। यह भी कि राष्ट्रवादी दलों का एक होना जरूरी है और राम मंदिर व किसानों के मुद्दों पर हमारे विचार एक हैं। भाजपा ने स्वीकारा है कि शिवसेना व अकाली दल पार्टी के पुराने साथी हैं।

राजनीति जो न करा दे कम ही है। हाल के दिनों तक शिवसेना के नेता केंद्र व राज्य सरकार में रहते हुए भी राजग सरकार पर जमकर तीर चला रहे थे। सामना में सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर लिखा जा रहा था। यहां तक कि पिछले दिनों दिल्ली में राजग सरकार के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के धरने पर शिवसेना के मुखर नेता संजय राउत नजर आये थे। दरअसल, दोनों दल सैद्धांतिक रूप से हिंदुवादी मुद्दों की राजनीति करते रहे हैं। लोकसभा व विधानसभा चुनाव तथा बीएसपी के चुनाव में जिस तेजी से भाजपा ने शिवसेना की जमीन पर बढ़त बनायी, उसने शिवसेना को बेचैन कर दिया। राजग गठबंधन में रहते हुए भी हमेशा से ही शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में दिखने की कोशिश करती रही है। अब शिवसेना को अपनी जमीन खिसकती नजर आई। भाजपा में मोदी उदय के बाद पार्टी नेताओं ने ठाकरे दरबार में हाजिरी लगानी बंद कर दी थी। यह सब शिवसेना को बेचैन करने वाला था। यही वजह है कि सरकारों में रहते हुए भी शिवसेना गाहे-बगाहे राजग सरकार पर हमलावर होती रही। अब तीन राज्यों में भाजपा को लगे झटकों के बाद मौके का चौका लगाकर शिवसेना अपने निखरे तैवरों के बूते सम्मानजनक सीटें पाकर संतुष्ट नजर आ रही है।

मोरपंख से करें चमत्कारी उपाय जानिए

मोर पंख की अहमियत का अंदाज हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में हमेशा रहता है आज की इस पोस्ट में मोर पंख के कुछ वास्तु उपायों के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा आइये जानें।
मोर पंख के वास्तु उपाय अपने घर में मैन दरवाजे के सामने मोर का पंख लगाएँ सांप कभी भी अंदर नहीं आ पायेगा क्योंकि मोर सांप का दुश्मन होता है साथ ही मोर का पंख कालसर्प दोष को भी दूर करता है।

अगर पैसा बहुत कमता हो फिर भी टिकता नहीं तो मोर पंख का पंखा बनायें जो हाथ से हिलाकर हवा लेते हैं वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा उसके बाद सुख शांति और बरकत आएगी।
घर में मोर पंख को रखने से शुभता का संचार होता है तथा सुख-समृद्धि और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।

आमलेट बनाने की विधि जानिए

सामग्री : अंडे - 4 मक्खन - 2 टेबल स्पून
प्याज - 1/2 (टुकड़ों में कटा हुआ)
टमाटर -1 (टुकड़ों में कटा हुआ)
हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी हुई)
जैतून का तेल - 3 टेबल स्पून
नमक और काली मिर्च - स्वादानुसार
हरा धनिया - 1 मुट्ठी (बारीक कटा हुआ)
हरा प्याज - 1 मुट्ठी (बारीक कटा हुआ)
चीज - एक मुट्ठी (कट्टकस किया हुआ)



एक बॉउल में 4 अंडे तोड़कर फेंट लें, फिर उसमें नमक और काली मिर्च मिलाकर लें। इसके बाद फेंटे हुए अंडे को पैन में डालें कुछ देर पका लें। अब मसाला ऑमलेट में हरा धनिया, हरा प्याज और कट्टकस किया हुआ चीज डालें। इसके बाद ऑमलेट को फोड़कर और उसके नीचे मक्खन थोड़ा सा मक्खन डालें। अब ऑमलेट को प्लेट में निकालें और हरे धनिये से गार्निश करके गरमा गरम सॉस या चटनी के साथ सर्व करें।

रोजगार मोर्चे पर सरकार को बड़ी कामयाबी, 2 करोड़ लोगों को मिला जॉब

नई दिल्ली। रोजगार के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट में मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है। रिपोर्ट की मानें तो देश में पिछले 16 महीने के दौरान (सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक) करीब दो करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास उपलब्ध कंपनियों के वेतन भुगतान संबंधी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।



केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा

की संख्या के आधार पर रोजगार को लेकर रिपोर्ट जारी करता है। धक्कट के वेतन भुगतान से जुड़े आंकड़े भी इनमें से एक हैं जिनमें सीएसओ अपनी रिपोर्ट में जारी करता है। ईएसआईसी अपने पास पंजीकृत लोगों को स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराता है, इसमें वे सभी प्रतिष्ठान शामिल होते हैं जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं और जिनका वेतन 21,000 रुपये तक है। ईएसआईसी की इस योजना से सितंबर

2017 से दिसंबर 2018 तक 1.96 करोड़ नये अंशधारक इस योजना से जुड़े। वहीं ईपीएफओ के आंकड़ों से पता चलता है कि संगठित क्षेत्र में दिसंबर 2018 में 7.16 लाख रोजगार सृजित हुए जो एक साल पहले इसी महीने में 2.37 लाख के मुकाबले लगभग तीन गुना है। इसके अनुसार सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक 72.38 लाख लोग ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े। ईपीएफओ के दायरे में वे सभी कंपनियां आती हैं, जहां 20

से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये मासिक तक है, वे अनिवार्य रूप से योजना के दायरे में आते हैं। इसी अवधि में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या 9,66,381 रही। एनपीएस के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं। आम लोग भी इसे स्वेच्छा से अपना सकते हैं। इसमें कहा गया है कि मौजूदा रिपोर्ट संगठित क्षेत्र में रोजगार के बारे में जानकारी देती है और समग्र रूप से रोजगार का आकलन नहीं करता है।

बीएसएनएल के इस प्लान में हुआ बदलाव

नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने 666 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में बदलाव किया है। बीएसएनएल के इस प्लान के साथ प्रतिदिन 1.5 जीबी डेटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। ब्रह्मरू के 666 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैधता में बदलाव किया गया है, पहले यह प्लान 129 दिनों की वैधता के साथ आता था, लेकिन अब इस प्लान के साथ आपको 122 दिनों की वैधता मिलेगी।



प्रीपेड रीचार्ज प्लान कंपनी के अतिरिक्त डेटा ऑफर का हिस्सा भी है। इसका मतलब 1.5 जीबी डेटा के अलावा यूजर्स को 2.2 जीबी अतिरिक्त डेटा मिलेगा। याद करा दें कि 666 रुपये वाला बीएसएनएल का यह प्लान 129 दिनों की वैधता के साथ हर रोज 1.5 जीबी डेटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस और अनलिमिटेड

वॉयस कॉल के साथ आता था। गौर करने वाली बात यह है कि 666 रुपये वाला प्रीपेड रीचार्ज प्लान को जून 2017 में लॉन्च किया गया था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस प्लान के साथ प्रतिदिन 2 जीबी डेटा दिया जाता था, लेकिन पिछले साल इसे घटाकर 1.5 जीबी प्रतिदिन कर दिया गया था।

लोकसभा चुनाव : छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार देश के ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और किसानों में लोकप्रिय कुछ छोटी बचत योजनाओं पर लागू ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्रालय ब्याज दरों में वृद्धि के लिए इस समय लघु बचत योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। इस संबंध में फैसला होने पर ब्याज दरों में परिवर्तन अगले वित्त वर्ष की



पहली तिमाही में लागू हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 2018-19 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.55 फीसदी से बढ़ाकर 8.65 फीसदी करने के प्रस्ताव की घोषणा किए जाने के बाद छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में संशोधन करने पर

विचार किया जा रहा है। बाजार में जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है वहां ईपीएफओ ने बाजार के रुखों के बिल्कुल उलट अपने प्रस्ताव की घोषणा की। ब्याज दरों में बदलाव अमल में आने पर इससे पेंशनधारकों, बुजुर्गों, किसानों और मुख्य रूप से छोटी बचतों के ब्याज से प्राप्त आय पर निर्भर रहने वाले लोगों को फायदा होगा।

रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए 8 ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ा दिए हैं, यूपी व एमपी जाने वालों को होगा फायदा

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने पिछले काफी समय से रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए 8 ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ा दिए हैं। इन ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ने से उत्तर प्रदेश, मध्या प्रदेश समेत दक्षिण भारत जाने वाले करोड़ों यात्रियों को फायदा होगा। रेलवे की तरफ से पिछले कुछ दिनों में कई रेलगाड़ियों को अस्थायी स्टॉपेज दिए गए हैं। अभी इन 8 ट्रेनों को भी प्रयोगात्मक तौर पर छह महीने के लिए स्टॉपेज दिए गए हैं।

22927/22928 बांद्रा टर्मिनस-अहमदाबाद लोकशांति एक्सप्रेस ट्रेन को 24 फरवरी, 2019 से प्रयोगात्मक तौर पर 6 महीने के लिए उम्बर्गांव स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ये होगा ट्रेन का शेड्यूल बांद्रा से अहमदाबाद के लिए चलने पर यह ट्रेन लगभग 10.16 बजे रात उम्बर्गांव पहुंचेगी। यहां से यह गाड़ी दो मिनट रुकने के बाद 10.18 बजे चल देगी। वहीं अहमदाबाद से चलने पर यह गाड़ी दोपहर 3.21 बजे इस स्टेशन पर पहुंचेगी और दो मिनट के स्टॉपेज के बाद 3.23 बजे चल देगी।

चहल ने 'गली ब्वॉय' स्टाइल में किया वायुसेना को सैल्यूट

नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी वायुसेना को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर बधाई दी है। चहल ने बेहद खास अंदाज में भारतीय एयरफोर्स को बधाई दी और सलाम किया। उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म 'गली ब्वॉय' के अंदाज में भारतीय एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को सैल्यूट किया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों के शहीद होने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से सेना को 'खुली छूट' (फ्री हैंड) देने के बाद वायु सेना ने आज तड़के 3.30 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद द्वारा चलाए जा रहे तीन आतंकीवादी शिविरों को नष्ट कर दिया।

भारत-पाक मैच को लेकर गांगुली के स्पटीकरण का सचिन ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस कड़वाहट का असर खेल जगत में भी देखने में आया है। देश के कई दिग्गज खिलाड़ियों की राय है कि भारतीय टीम को पुलवामा हमले के प्रति विरोध दिखाते हुए वर्ल्डकप 2019 के अंतर्गत 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी ओर, कुछ अन्य दिग्गज खिलाड़ी चाहते हैं कि भारत यह मैच खेलकर पाकिस्तान को हराए और अलग अंदाज में पुलवामा हमले का पाकिस्तान का करारा जवाब दे। देश के दो दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर और सौरव गांगुली इस मामले में अलग-अलग राय के साथ सामने आए थे।

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस कड़वाहट का असर खेल जगत में भी देखने में आया है। देश के कई दिग्गज खिलाड़ियों की राय है कि भारतीय टीम को पुलवामा हमले के प्रति विरोध दिखाते हुए वर्ल्डकप 2019 के अंतर्गत 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी ओर, कुछ अन्य दिग्गज खिलाड़ी चाहते हैं कि भारत यह मैच खेलकर पाकिस्तान को हराए और अलग अंदाज में पुलवामा हमले का पाकिस्तान का करारा जवाब दे। देश के दो दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर और सौरव गांगुली इस मामले में अलग-अलग राय के साथ सामने आए थे।

अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुई इंदिरा नूई

नई दिल्ली। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गई हैं। ऑनलाइन रिटेल कंपनी की तरफ से इसकी घोषणा की गई। अक्टूबर, 2018 में पेप्सिको से इस्तीफा देने वाली नूई अमेजन के बोर्ड



12 साल तक सभाली पेप्सिको की कमान

अमेजन की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया, 'हम इस महीने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दो नए सदस्यों के चयन से बेहद उत्साहित हैं। रोज ब्रेवर और इंदिरा नूई, आपको स्वागत है।' नूई अमेजन की ऑडिट कमेटी की सदस्य होंगी। भारत में जन्मीं 63 वर्षीय नूई ने 12 साल तक पेप्सिको का कमान संभालने के बाद

पिछले साल अगस्त में पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए व्हाइट हाउस इंदिरा नूई के नाम पर विचार कर रहा है।

नई दिल्ली। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गई हैं। ऑनलाइन रिटेल कंपनी की तरफ से इसकी घोषणा की गई। अक्टूबर, 2018 में पेप्सिको से इस्तीफा देने वाली नूई अमेजन के बोर्ड

आज का राशिफल

शुक्र: आज का दिन मित्रों और परिवर्तनों के साथ आनंद में बीतेगा। नए वस्त्र और आभूषण प्राप्त होंगे। मान-सम्मान प्राप्त होगा। मध्याह्न के बाद से आपको अपने व्यवहार में थोड़ा संयम रखना होगा।
शुक्र: व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी है। नए कार्य का प्रारंभ आज न करें। बौद्धिक चर्चाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। संतान के संबंध में चिंता रहेगी।
शुक्र: हलाक के कारण आप कुछ धकान और निराशा का अनुभव करेंगे। संभव हो तो प्रवास आज टाल दें। संपत्ति के मामले में आपको फिलहाल कोई भी योजना स्थगित करने की होगी।
शुक्र: आज धार्मिक यात्रा होने की संभावना है। नए कार्य का प्रारंभ कर पाएंगे। विदेश से लाभदायी समाचार मिलने की उम्मीद है। निवेश करने वालों के लिए समय लाभदायी है।
शुक्र: आज किसी बिजनेस के मामले में किसी भी प्रकार के नए कार्य को करने से बचें। आज मौन रहकर दो दिन बिता देने में ही बुद्धिमानी है, नहीं तो किसी के साथ मनमुटाव का प्रसंग बन सकता है।
शुक्र: आज संतुलित विचारों के साथ दिन का प्रारंभ होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नए वस्त्र और आभूषणों को खरीदने के पीछे खर्च हो सकता है।
शुक्र: संपत्ति के मामले में लेन-देन करने के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऊपरी अधिकारी वर्ग आपको प्रोत्साहित करेंगे।
शुक्र: आज के दिन व्यावसायिक वर्ग के लिए संभलकर चलना आवश्यक है। ऊपरी अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय विवेक रखना होगा। संतान के आरोग्य के विषय में चिंता रहेगी।
शुक्र: किसी के साथ वाद-विवाद या तकरार न करने की सलाह है। क्रोध पर संयम बरतिएगा। सुखमय विषयों में आपको रुचि रहेगी। गहन चिंतन आप के मन को शांति प्रदान करेगा। मध्याह्न के बाद समय रूप से अनुकूल होता दिखेगा। बौद्धिक रूप से लेखक कार्य में आप सक्रिय रह पाएंगे।

शब्द सामर्थ्य-90

बाएं से दाएं

- रूचिकर लगने वाली, रूचि के अनुकूल, चुनी हुई
- राजाओं के बैठने का आसन
- श्रमिक
- कार्य, काज
- वाद्ययंत्र आदि बजाने वाला
- सहारा, सहायक
- शर्म, लाज, हया
- मक्खन, माखन
- श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं
- पराजय, माला
- मुंह ढकने का चंद्रमा, रजनीश, चांद
- पुस्तक
- अवधि, समय
- तर्क विर्तक और कहा-सुनी, जबानी झगड़ा
- सूरत, आकार
- झुका हुआ, नत।

ऊपर से नीचे

- पंद्रह दिन का समय, शुक्ल या कृष्ण पक्ष
- आग बुझाने की मशीन
- हिंदू विवाहित स्त्री के मांग में भरने का लाल चूर्ण
- पराजय, माला
- मुंह ढकने का कपड़ा, घुंघट
- चंदन, दक्षिण का
- व्यवस्थित करना, सजाना, स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध संबंधी कृत्य
- विशालता, बड़प्पन, महान होने का भाव
- अड्चन, रुकावट
- जमीन के अंदर गहरा और लंबा रास्ता, अच्छे रंग का
- बेवकूफ, मूर्ख, अहमक
- औसत के हिसाब से
- कृपक
- अधिक, ज्यादा।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 89 का हल

ज	ल	आ	वा	जा	ही
मा	खू	ब	दू	र	स्थ
ना	दा	न	सा	ग	लक्ष्य
न	ख	त	र	ल	
वी	रा	न	च	ट	क
र	ब	आ	ज	क	ल
		आ	ग	दा	ना
अ	ग	र	म	ग	र
भा	भी	ती	न	व	ध

सू-दोक्-90

8		1		5
6		8		3
	3		2	1
	3	9	5	4
5		3		9
	4		2	6
4		2	3	6
	6		8	7
2	9	7	6	

नियम

- कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें प्रथमों का एक खंड बनता है।
- हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।
- बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कालार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोक् क्र 89 का हल

5	3	9	7	4	8	6	2	1
2	1	6	5	9	3	4	7	6
4	7	8	1	6	2	3	5	9
3	6	1	8	5	9	2	4	7
8	5	2	3	7	4	1	9	6
7	9	4	2	1	6	8	3	5
6	4	7	9	2	1	5	6	3
1	8	5	4	3	7	9	6	2
9	2	3	6	8	5	7	1	4